



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट दि. 20-09-2021

थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा भैंस चोरी करने वाले गैंग के दो शातिर अभियुक्तों रहमान उर्फ अरमान और अरमान उर्फ सल्लू को किया गिरफ्तार कब्जे से एक अदद पौनिया 12 बोर मय जिन्दा कारतूस, एक मैक्स गाडी व 04 चोरी किये हुए पशु बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वाँछित संदिग्ध व्यक्ति/वाहन अभियान के दौरान मु0अ0सं0392/2021 धारा 307/380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण रहमान उर्फ अरमान पुत्र बरकत अली 2. अरमान उर्फ सल्लू पुत्र बीरबल खान निवासीगण ग्राम जाटऊ थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद को दौराने चैकिंग गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 13/14.09.2021 की रात्रि में भैंस चोरी की घटना के दौरान ग्रामीणों के जागने पर अभियुक्तों द्वारा ग्रामीणों पर फायरिंग की गयी जिसमें भैंस चोरों का एक साथी ओमप्रकाश घायल हो गया तथा मौके पर भैंस चोरों की मैक्स गाडी UP 83 T 7304 चोरी की 04 पड्डे/पड़िया बरामद हुई जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 392/2021 धारा 307380/411 भादवि पंजीकृत हुआ था । घटना के अनावरण हेतु थाना हाजा से एक टीम का गठन किया गया । टीम द्वारा घायल अभियुक्त ओमप्रकाश के मोबाइल नम्बर की कॉल डिटेल् प्राप्त की गयी तथा कॉल डिटेल् के अवलोकन से संदिग्ध प्रतीत होने वाले नम्बरों की भी कॉल डिटेल् प्राप्त की गयी । अभियुक्त ओमप्रकाश से पूछताछ से जानकारी मिली कि घटना के दिन रात्रि करीब 21.00 बजे कोटला ग्राम में इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प से गाडी में डीजल भरवाया गया था । पेट्रोल पम्प से अभियुक्तगण की वीडियो प्राप्त की गयी । गठित टीम द्वारा अथक प्रयासों से विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. अफसर उर्फ शानू पुत्र बख्शी खान 2. रहमान उर्फ अरमान पुत्र बरकत अली 3. अरमान उर्फ सल्लू पुत्र बीरबल खान 4. अरमान पुत्र अतरे खान निवासीगण ग्राम जाटऊ थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद व एक अन्य अभियुक्त नाम पता अज्ञात निवासी बड़ा गाँव का नाम प्रकाश में आया है । गिरोह का मुखिया अफसर उर्फ शानू उपरोक्त है जो भैंस चोरी की घटना कारित करता है । दिनांक 13/14.09.2021 की रात्रि को भी उक्त गिरोह द्वारा अलीपुर मोहनीपुर थाना जसराना से एक पड़िया, ग्राम सिकन्दपुर थाना एका से एक पड़िया तथा नगला भाट थाना जसराना से एक पड़िया तथा गहेरी थाना एका से एक पड़िया भी चोरी की गयी थी जोकि बरामद की जा चुकी है । दिनांक 19.09.2021 को अभियुक्त रहमान उर्फ अरमान व अरमान उर्फ सल्लू उपरोक्त को मुखविर की सूचना पर चैकिंग के दौरान पटीकरा पुल पर गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त रहमान के कब्जे से एक अदद पौनिया 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया । अभियुक्तगण ने दिनांक 13/14.09.2021 की रात्रि में अपने साथियों के साथ फरीदा तिराहा पर भैंस चोरी की घटना व ग्रामीणों पर फायरिंग की घटना करना स्वीकार किया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता:-

1. रहमान उर्फ अरमान पुत्र बरकत अली निवासी ग्राम जाटऊ थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद
2. अरमान उर्फ सल्लू पुत्र बीरबल खान निवासी ग्राम जाटऊ थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।

बरामदगी:-

1. एक अदद पौनिया 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर मय एक खोखा कारतूस 12 बोर
2. मैक्स गाडी UP 83 T 7304
3. 04 पड्डे /पडिया (पशु)

गिरफ्तार अभियुक्त रहमान उर्फ अरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 242/2021 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेड थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी ।
- 2- मु0अ0सं0 246/2021 धारा 420/269/270/411/413 भादवि व 3/5 पशु क्रूरता अधि0 व 3 महामारी अधि0 थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी ।
- 3- मु0अ0सं0 65/2021 धारा 379 भादवि थाना बिछवा जनपद मैनपुरी ।
- 4- मु0अ0सं0 112/2021 धारा 382/506/411 भादवि थाना भोगाँव मैनपुरी ।
- 5- मु0अ0सं0 392/2021 धारा 149/382/307 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक फतेह बहादुर सिंह भदौरिया थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
2. व0उ0नि0 सुनील कुमार थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 उमेशचन्द्र थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
4. उ0नि0 श्री कृपाल सिंह थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
5. का0 1091 संदीप चौधरी थाना जसराना जनपद फिरोजबाद ।
6. का0 1386 पवन कुमार थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
7. का0 410 विशाल चौधरी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।